

नक पयटन समाच



दिनांक: शुक्रवार २७ अगस्त २०२१

संपादकः प्रो. (डॉ.) आलोक शर्मा, निदेशक, भापयाप्रसं

"उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं, जो समाज के हित में ना हो

पर्यटन प्रमुख समाचार संक्षेप – अंतर्राष्ट्रीय



दिसंबर तक ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका, जापान और अन्य देशों के लिए उड़ानें फिर से शुरू करने की उम्मीद करता है क्वान्टास: ऑस्ट्रेलियाई एयरलाइन ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने दिसंबर 2021 तक अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। क्वान्टास एयरवेज साल



के अंत तक यू.एस., यू.के. और जापान के सकती है। इससे पहले कि ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ फिर से खुल सकें, देश को कम से कम 80% आबादी को कोविड-19 के

आबादी वर्तमान में पूरी तरह से टीकाकृत है।

ऐन दुबई अक्टूबर में पर्यटकों का स्वागत करेगा: दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील अब 21 अक्टूबर को संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। ब्लुवाटर्स द्वीप पर स्थित, ऐन दुबई दुबई के विश्व रिकॉर्ड तोड़ने

वाले आकर्षणों की लंबी सूची में शामिल होने के लिए नवीनतम मील का पत्थर है। यह ऑब्जर्वेशन व्हील लंदन आई की ऊंचाई से दोगुने के करीब है। दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील ऐन दुबई 💵



आगंतुकों को 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से वे दुबई के सुरम्य क्षितिज के राजसी दृश्य का आनंद ले सकते हैं।

सऊदी पर्यटन प्राधिकरण ने थिंक स्ट्रॉबेरी को अपना भारतीय बाजार प्रतिनिधि नियुक्त किया: 2019 में अपने पर्यटन उद्योग को उदार बनाने के बाद, सऊदी अरब ने अब भारत से होने वाले आउटबाउंड पर्यटन को आकर्षित कि "हम आज़ादी का अमृत महोत्सव के करने के लिए भारतीय बाजार में थिंक स्ट्रॉबेरी को अपना प्रतिनिधि भागीदार नियुक्त किया है।

बर्किंघम पैलेस में 17 महीनों के बाद हुई गार्ड परिवर्तन समारोह की स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएंगे।"



के बर्किंघम पैलेस में गार्ड बदलने का समारोह मार्च 2020 में पिछले साल महामारी के रूप में भीड़ इकट्रा होने की आशंका के कारण रोक दिए जाने के बाद सोमवार को वापस आ गया। शाही

परिवार ने कल अपने इंस्टाग्राम पेज पर परंपरा की वापसी के फुटेज साझा किए, कैप्शन के साथ "देखो बर्किंघम पैलेस में कौन वापस आ गया है ..."

अफ़्रीकी एयरवेज: दक्षिण अफ्रीका के राज्य के स्वामित्व वाली राष्ट्रीय वाहक दक्षिण अफ्रीकी एयरवेज (एसएए) 23 सितंबर से सीमित गंतव्यों के बीच उड़ान भरना शुरू कर देगी, इसने ट्विटर पर कहा, एक साल बाद परिचालन बंद कर दिया क्योंकि यह अपने कर्ज का भुगतान करने में विफल रहा।

पर्यटन प्रमख समाचार संक्षेप - राष्ट्रीय



लिए अंतरराष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू कर शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जलियांवाला बाग स्मारक के पुनर्निर्मित परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री: परिसर में कई विकास कार्य किए गये हैं। इनमें पंजाब की स्थानीय स्थापत्य शैली का पूरा ध्यान रखा गया है। शहीदी कुएं की मरम्मत की गई है और इसका नए सिरे से पुनरोधार खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाने की आवश्यकता है। वर्तमान में, लगभग 30% किया गया है। जलियांवाला बाग के बीचोंबीच स्थित ज्योति स्मारक की भी मरम्मत और पुनरोधार किया गया है और आसपास के बाग-बगीचों का सौंदर्यीकरण तथा रास्तों का चौडीकरण किया गया है। जलियावाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को हुई घटनाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक लाइट एंड साउंड शो की भी व्यवस्था की गई है।

> नई दिल्ली - केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और जी. किशन रेड्डी ने 'संविधान का निर्माण' ई-चित्र प्रदर्शनी और चित्रांजलि @75 वर्चुअल फिल्म पोस्टर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया: स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज राष्ट्रीय

मीडिया केंद्र मे 'संविधान का निर्माण' ई-प्रदर्शनी, 'चित्रांजली@ वर्चुअल फ़िल्म पोस्टर का उदघाटन किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री रेड्डी जी ने कहा



माध्यम से, युवाओं को 2047 में एक मजबूत, शक्तिशाली और आत्मविश्वास से भरे भारत की कल्पना करने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं, जब हम भारत की

वापसी: ब्रिटिश परंपरा कल सप्ताह में चार दिन कम समय पर लौट आई। लंदन नई दिल्ली में जारी हुई पूर्वोतर क्षेत्र जिला एस.डी.जी. इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 का पहला संस्करण: सतत विकास लक्ष्य (सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स) की प्राप्ति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एस.डी.जी. इंडेक्स रिपोर्ट और डैशबोर्ड 2021-22 के पहले संस्करण को आज नई दिल्ली में जारी किया गया। इस रिपोर्ट को नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार, केंद्रीय पूर्वोतर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी और पूर्वोतर क्षेत्र विकास राज्यमंत्री बी एल वर्मा ने संयुक्त रूप से जारी किया। इस अवसर पर जी. किशन रेड्डी ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला एसडीजी सूचकांक साक्ष्य-आधारित योजना, संसाधन 23 सितंबर से परिचालन फिर से शुरू करने के लिए तैयार है दक्षिण आवंटन, वित्तीय और संतुलित क्षेत्रीय विकास के प्रभावी पर्यवेक्षण और निगरानी



में योगदान देगा।

खोले अपने दरवाजे: कोविड वैक्सीन की दो खुराक लेने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए और भी देश सीमाएं खोल रहे हैं। श्रीलंका इस सूची में अंतिम देशों में से एक है। एक और विशेषता यह है कि श्रीलंका कोविशिल्ड और कोवैक्सिन दोनों टीकों को मंजूरी देता है। अधिकांश देश केवल कोविशील्ड को स्वीकार कर रहे हैं। आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर केरल में कन्नूर के पय्यान्नूर में विभिन्न स्थानों पर हेरिटेज वॉक का आयोजन: पर्यटन मंत्रालय के तहत भारत पर्यटन ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर केरल में कन्नूर के पय्यान्नुर में विभिन्न स्थानों पर हेरिटेज वॉक का आयोजन किया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में पय्यान्नूर का विशेष महत्व है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में, संस्कृति मंत्रालय ने केरल में ऐतिहासिक महत्व के दस स्थान चिन्हित किए है, जिसमें कन्नूर जिले का करीवेल्लूर भी शामिल है।

भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क खुला: भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क "माना हर्बल पार्क" को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। यह हर्बल पार्क उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव में स्थित है। यह पार्क समुद्र तल से

11000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। भारत-चीन सीमा पर स्थित यह स्थान वनस्पतियों और जीवों में समृद्ध है। हर्बल पार्क हाल ही में सरकार द्वारा स्थापित किया गया था, लेकिन कोविड-19 की वजह से पार्क को बंद करना

पड़ा। हर्बल पार्क का मुख्य आकर्षण केवल हिमालय में पाए जाने वाले अनोखे आयुर्वेदिक पौधे और फूल हैं।

उत्तर प्रदेश - खेल विश्वविद्यालय के साथ पर्यटन केंद्र की सौगात: मेरठ के सलावा में खेल विश्वविद्यालय के साथ पर्यटन केंद्र भी बनेगा। खेल विवि की जमीन विभाग को मिल चुकी है। कमिश्नर सुरेन्द्र सिंह के मुताबिक, पर्यटन केंद्र के

लिए जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। इससे यह क्षेत्र खेल शिक्षा के साथ ही पर्यटन के तौर पर भी विकसित होगा। जल्द ही शिलान्यास की तैयारी है। खेल विश्वविद्यालय से अलग विकसित पर्यटन केंद्र में खेल उत्पादों की प्रदर्शनी, स्पोर्ट्स गार्डन और मिनी एम्यूजमेंट पार्क बनाया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर में हो रहा है तीन महीने का पर्यटन महोत्सव अक्टूबर से शुरू: जम्मू कश्मीर की समृद्ध लोक संस्कृति, परंपरा, प्राकृतिक सौंदर्य को अगर नजदीक सेे देखना, समझना और उसका

आनंद लेना है. तो यहां आने की तैयारी कर लीजिये। तीन माह चलने वाला वैक्सीन की दोनों खुराक लेने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए कई देशों ने पर्यटन महोत्सव अक्टूबर में शुरू हो जा रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित हो रहे पर्यटन महोत्सव का सिलसिला जनवरी 2022 में गुलमर्ग की हिमच्छादित चोटियों में विंटर कार्निवल तक चलेगा।

> राजस्थान सरकार ने बनाई ईको टूरिज्म नीति: राजस्थान सरकार ईको टूरिज्म (पर्यावरण पर्यटन) को बढ़ावा देगी। इसके लिए पहली बार नीति बनाई गई है। सरकार द्वारा ईको टूरिज्म के लिए तैयार की गई नीति में डेजर्ट नाइट, टाइगर रिजर्व, लेपर्ड सफारी, बर्ड वॉचिंग पाइंट्स, रीवर कैंपिंग, बोटिंग, बायो-डायवर्सिटी, हॉट स्पॉट और एग्रीकल्चर टूरिज्म का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार देशी-विदेशी पर्यटकों को जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और नागौर जैसे रेगिस्तानी जिलों में लाने के लिए डेजर्ट टूरिज्म को बढ़ावा देगी।

> जम्मू संभाग में धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा: जम्मू संभाग में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सड़क संपर्क का विस्तारीकरण किया जा रहा है। इस दिशा में संभाग के दूरदराज क्षेत्रों में इस साल 90 किलोमीटर के सड़क संपर्क के विस्तारीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा। विश्व बैंक पोषित झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत संभाग में सात सड़क परियोजना पर काम जारी

> तेलरु में होगी राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप: जिला चंबा में पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत जिला प्रशासन चलो चंबा अभियान के तहत अक्टूबर माह में भलेई के समीप तलेरु बोटिग प्वाइंट पर तीन दिवसीय ड्रैगन बोट फेस्टिवल आयोजित करेगा। भारतीय कायकिग व कैनोइंग एसोसिएशन के सौजन्य से द हिमालय गोरल नौवीं राष्ट्रीय ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप 2021 तलेरू के बोटिंग प्वाइंट पर नौ से 12 अक्टूबर तक होगी। उक्त चैंपियनशिप वरिष्ठ व



कनिष्ठ वर्ग सहित पुरुष व महिला वर्ग में आयोजित होगी, जिसमें देशभर से

लगभग एक हजार से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेंगे।

मेघा अजगांवकर को लीला पैलेस, होटल और रिसॉर्ट में बिक्री महाप्रबंधक नियुक्त किया गया: लीला समूह के बिक्री और वितरण नेटवर्क और रणनीतियों को मजबूत करने के लिए बिक्री प्रदर्शन को आगे बढ़ाने और चलाने के लिए लीला पैलेसेज, होटल्स एंड रिसॉर्ट्स ने मेघा अजगांवकर को जनरल मैनेजर-सेल्स नियुक्त किया है। अपनी भूमिका में, वह बिक्री प्रदर्शन का नेतृत्व और संचालन करेंगी और इस प्रकार लीला के बिक्री और वितरण नेटवर्क और रणनीतियों को मजबूत करेंगी।

मुद्रा अद्यतन (##)

मुद्रा	मूल्य ₹
3	••
1 USD (US\$)	74.13
1 EURO (€)	87.22
1 GBP (£)	101.64
1 JPY (¥)	0.673
1 AUD (A\$)	53.75

(##) सभी आंकड़े लाइव मिड-मार्केट रेट हैं; जो उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं हैं और केवल सूचना के उद्देश्य से हैं।

'दैनिक पर्यटन समाचार' में पर्यटन विषय पर अपने लेख/विचार एवं सुझाव देने के लिये हमें संपर्क कर सकते ईमेल द्वाराः social@iittm.ac.in व्हाट्सएप द्वाराः +91 70427 30070

#आज़ादीकाअमृतमहोत्सव #जयहिंद आपका दिन श्रुभ हो...।



@IITTMOFFICIAL



o in Qiittmofficial



@IITTMOfficial

अस्वीकरणः भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रवंध संस्थान, ग्वालियर मुख्यालय द्वारा प्रस्तुत 'दैनिक पर्यटन समाचार' का मूल उद्देश्य पर्यटन अकादिमक जगत को दैनिक आधार पर हो रही घटनाओं व गतिविधियों से रूबरू कराना है, चूँकि पर्यटन जगत बहुत 'गतिक' (डायनेमिक) है। इस समाचार पत्र का स्त्रोत आधार विभिन्न सूचना माध्यमों से प्राप्त सम्प्रेषण है। अतः इनकी पुष्टि, संस्थान व संपादन मंडल नहीं करता है। हालांकि अकादिमक हित में इसकी प्रस्तुति केवल ज्ञान उन्नयन हेतु की जाती है।